



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246670
CG-DL-E-20062023-246670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2577]
No. 2577]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2023/ज्येष्ठ 29, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2023/JYAISHTHA 29, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 जून, 2023
सं. 12/2023

विषय: रसायनों और संबंधित उपस्करों के निर्यात हेतु सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईसी) के लिए नीति को संशोधित करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2023 में पैरा 10.08 (ix) में संशोधन।

का.आ. 2690(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 10.08(ix) में निम्नानुसार संशोधन करती है:

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
<p>10.08(ix) सॉफ्ट वेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर रसायन और संबंधित उपस्करों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईसी): 1सी, 1डी, 3डी001 और 3डी004 उप श्रेणियों में सूचीबद्ध रसायन (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) का निर्यात आस्ट्रेलिया समूह (एजी) देशों को और 1ई उप श्रेणी में सूचीबद्ध रसायनों का निर्यात रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) के पक्षकार राज्यों को 5 वर्ष की एक कालिक वैधता के साथ डीजीएफटी द्वारा जारी रासायनिक और संबंधित उपकरणों के निर्यात के लिए एक कालिक सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईसी) के आधार पर अनुमत है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र के तहत किए गए सभी निर्यात की निर्यात की पश्च रिपोर्टिंग की जाए।</p>	<p>10.08(ix) सॉफ्ट वेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर रसायन और संबंधित उपस्करों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईसी) :</p> <p>प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 10.16 में यथा सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट देशों का निर्यात हेतु रसायनों (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी को छोड़कर) का निर्यात 5 वर्ष की एक कालिक वैधता के साथ डीजीएफटी द्वारा जारी रासायनिक और संबंधित उपकरणों (जीईसी) के निर्यात के लिए एककालिक सामान्य प्राधिकार पत्र के आधार पर अनुमत है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र के तहत किए गए सभी निर्यात की निर्यात की पश्च रिपोर्टिंग की जाए।</p>

इस अधिसूचना का प्रभाव: जीईसी के तहत शामिल किये गए रसायनों हेतु प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 10.16 का संदर्भ प्रदान करने हेतु विदेश व्यापार नीति के पैरा 10.08 (ix) को संशोधित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/01/एम22/ईसी (एस)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2023

No. 12/2023

Subject:- Amendment in Paragraph 10.08 (ix) in the Foreign Trade Policy 2023 to amend the Policy for General Authorisation for Export of Chemicals and related Equipments (GAEC).

S.O. 2690(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para 10.08(ix) of the Foreign Trade Policy, 2023 as under:

Existing Paragraph	Revised Paragraph
<p>10.08(ix) General Authorization for export of Chemicals and related equipments(GAEC) except software and technology : Export of chemicals (Excluding Software and Technology) listed in 1C,1D, 3D001 and 3D004 sub-categories is allowed to Australian Group(AG) countries and those listed in 1E sub-category allowed for export to State Parties to the Chemical Weapons</p>	<p>10.08(ix) General Authorization for export of Chemicals and related equipments (GAEC) except software and technology :</p> <p>Export of Chemicals (excluding Software and Technology) for export to specified countries as listed in Paragraph 10.16 of Handbook of</p>

Convention (CWC) on the basis of a onetime General authorization for export of Chemicals and related equipments (GAEC) issued by DGFT with one time validity of 5 years subject to the post export reporting of all the exports done under the authorisation.	Procedure is allowed on the basis of a onetime General Authorization for Export of Chemicals and related equipment (GAEC) issued by DGFT with one time validity of 5 years subject to the post export reporting of all the exports done under the authorisation.
---	--

Effect of this Notification: Para 10.08(ix) of FTP has been amended to provide reference to Para 10.16 of HBP 2023 for chemicals covered under GAEC.

[F. No. 01/91/180/01/AM22/EC(S)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.